

This question paper contains 7 printed pages.]

Your Roll No.

9596

B.Com. (Hons.)/II

B

Paper XIV-B – AUDITING

(Admissions of 2004 onwards)

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note : (i) The maximum marks printed on the question paper are applicable for the candidates registered with the School of Open Learning. These marks will, however, be scaled down proportionately in respect of the students of regular colleges, at the time of posting of awards for compilation of result.

(ii) Answers may be written *either* in English *or* in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : (i) प्रश्न-पत्र पर अंकित पूर्णांक 'स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग' में प्रवेश-प्राप्त छात्रों के लिए मान्य हैं ।
नियमित विद्यार्थियों के लिए इन अंकों का समानुपातिक पुनर्निर्धारण परीक्षाफल तैयार करते समय किया जाएगा ।

(ii) इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt **all** questions.

Marks are indicated against each question.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये ।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गये हैं ।

1. "Detection and prevention of errors and frauds are not the main objects of auditing." Discuss. 8
"त्रुटियों और कपटों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना ही लेखा-परीक्षण के मुख्य उद्देश्य नहीं हैं ।" विवेचन कीजिए ।

OR/अथवा

- "An auditor is a watchdog and not a blood hound." Critically examine this statement. 8
"लेखा-परीक्षक एक हित-प्रहरी होता है, खून का शिकारी नहीं ।"
इस कथन की आलोचनात्मक जाँच कीजिए ।

2. (a) What do you mean by statutory audit ?
Differentiate it with internal audit. 5
- (b) "Audit of accounts of sole-proprietor is not compulsory, yet he may get his books of accounts audited for various reasons."
Comment. 5
- (c) Explain the objects of working papers and what are the contents of working papers. 4
- (क) सांविधिक लेखा-परीक्षा से आप क्या समझते हैं ?
आंतरिक लेखा-परीक्षा से आप इसे कैसे विभेदित करेंगे ?
- (ख) "एकल मालिक के लेखों की लेखा-परीक्षा अनिवार्य नहीं होती, परंतु उसे विभिन्न कारणों से अपनी लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा करा लेनी चाहिए ।" टिप्पणी कीजिए ।
- (ग) कार्य-पत्रों के उद्देश्यों की व्याख्या दीजिए और बताइए कि कार्य-पत्रों की विषय वस्तु क्या है ?

OR/अथवा

- (a) Distinguish between internal check and internal control. 5
- (b) How does the working of internal check affect the work of external auditor ? 5

(c) Distinguish between Financial Audit and Management Audit.

4

(क) आंतरिक जाँच और आंतरिक नियंत्रण में अंतर बताइए ।

(ख) आंतरिक जाँच की कार्यवाही किस प्रकार बाह्य लेखा परीक्षक के कार्य को प्रभावित करती है ?

(ग) वित्तीय लेखा-परीक्षा और प्रबंधकीय लेखा-परीक्षा में अंतर बताइए ।

3. (a) Briefly explain the general principles of Vouching.

5

(b) "Verification is something more than valuation of assets and liabilities." Explain.

5

(c) How will you verify Land & Building and Debtors ?

4

(क) प्रमाणन के सामान्य सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए ।

(ख) "सत्यापन, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन से अधिक उपयोगी कार्यवाही है ।" व्याख्या कीजिए ।

(ग) भूमि और भवन तथा देनदारों का सत्यापन आप कैसे करेंगे ?

OR/अथवा

- (a) What are the legal provisions for appointment of a company auditor ? 5
- (b) What are the duties of a company auditor ? 5
- (c) "An auditor's report may be unqualified, qualified or adverse." Discuss. 4
- (क) कंपनी के लेखा-परीक्षक की नियुक्ति के लिए विविध प्रावधान क्या हैं ?
- (ख) कंपनी के लेखा-परीक्षक के कर्तव्य क्या हैं ?
- (ग) "लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट अपरिमाणित, परिमाणित अथवा प्रतिकूल हो सकती है।" विवेचन कीजिए।
4. (a) Write a note on Cost Audit. 5
- (b) What do you understand by 'Auditing around the computer' and 'Auditing through the computer' ? 5
- (c) What is Tax Audit ? 4
- (क) लागत लेखा-परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए।
- (ख) 'कम्प्यूटर के करीब-करीब लेखा-परीक्षण' और 'कम्प्यूटर के जरिए लेखा-परीक्षण' से आप क्या समझते हैं ?
- (ग) कर का लेखा-परीक्षण क्या होता है ?

OR/अथवा

- (a) The audit firm AB & Co. has been the auditor for While Ltd. for last seven years. This year, A one of the partners of the firm, has instructed the audit team not to make a new audit programme and conduct audit on the basis of prior experience. Comment. 5
- (b) Ram and Shyam invested in the shares of M India Ltd. They lost their investment. They sued the auditors on the plea that auditors have given a clean audit report for last few years for the said entity. Comment. 5
- (c) "XYZ Ltd. a Govt. Co. appointed the auditors and fixed the remuneration in an Annual General Meeting." Comment. 4
- (क) "एक लेखा-परीक्षण करने वाली फर्म A B & Co., पिछले सात वर्ष से वाइल लिमिटेड की लेखा-परीक्षक रही है। इस वर्ष फर्म के एक भागीदार A के लेखा-परीक्षण दल को एक नए लेखा-परीक्षण कार्यक्रम नहीं बनाने की हिदायत दी और पिछले अनुभव के आधार पर लेखा-परीक्षण संचालित करने को कहा।" टिप्पणी कीजिए।

(ख) “राम और श्याम ने ‘एम इन्डिया लिमिटेड’ के शेयरों में निवेश किया । उन्होंने अपना निवेश खो दिया । उन्होंने लेखा-परीक्षकों पर इस तर्क के आधार पर मुकदमा कर दिया कि लेखा-परीक्षकों ने इस निवेश के लिए पिछले कई वर्षों से साफ लेखा-परीक्षण रिपोर्ट दी है ।” टिप्पणी कीजिए ।

(ग) “X Y Z लिमिटेड एक सरकारी कंपनी ने लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की और वार्षिक आम सभा में पारिश्रमिक तय कर दिया ।” टिप्पणी कीजिए ।

Qapaper.com